



B L KASHYAP

WE BUILD YOUR WORLD

10.09.2015

Department of Corporate Services, (Compliance Cell) BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	Listing Department, (Compliance Cell) National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
---	--

Dear Sir,

Sub: 25th Annual General Meeting

Further to our intimation dated 04.09.2015, we are enclosing herewith the copy of the newspaper advertisement published on 05.09.2015 with respect to Book closure date, Annual General Meeting and remote e-voting.

Thanking you,
For B.L. Kashyap and Sons Limited


Pushpak Kumar
GM-Corporate Affairs & Company Secretary

Regd. Office :
B L Kashyap And Sons Limited.

(CIN : L24899DL1989PLC036148)
409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola,
New Delhi-110025, India
tel : +91 11 43058345, 40500300
fax : +91 11 43046972
mail : info@blkashyap.com
web : www.blkashyap.com

DHAMPUR INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN: U70109DL2006PLC154899
Regd office: 24, School Lane, Near World Trade Centre, New Delhi- 110 001
Tel No - 011- 2371 1223
email- daci45@gmail.com
Before the Central Government Regional Director, Northern Region Noida, Uttar Pradesh
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND
In the matter of DHAMPUR INFRASTRUCTURE LIMITED having its registered office at 24, School Lane, Near World Trade Centre, New Delhi- 110 001.
Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 31st August, 2015 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "Uttar Pradesh".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, A-14, Sector-I, PDI, Bhawan, Noida 201 301 Uttar Pradesh within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
Regd office: Village- Pallawala, Tehsil Dhampur, Distt. Bijnor (UP) 246761
For DHAMPUR INFRASTRUCTURE Ltd
RANVEER SINGH THAKUR
Director
Date: 04.09.2015
Place: New Delhi DIN: 06453629

For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214

INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED
(CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER : L74993UP1990PLC015721)
Regd. Office: 10.5 Km Milestone, Rampur Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)
E-Mail ID - info@indiantoners.com, Website: www.indiantoners.com
Phone No. 0595-2356271 Fax No. 0595-2356273
NOTICE FOR LOSS OF SHARE
Notice is hereby given that the following share certificate(s) have been reported as lost/stolen/misplaced/not traceable and the registered holder(s) has/have applied to the company for issue of duplicate share certificates.

Folio No.	Name of shareholders	Distinctive Nos.	Certificate No.	No. of shares
12221	Lalita Gupta	3712801 to 3712900	25121	100

Any person(s) who has/have any claim in respect of these share certificates should write to the company at the address given above within 15 days from the date of publication of this notice. In case where no objection is received within 15 days, the company will proceed to issue duplicate share certificates. The public is hereby warned against purchasing or dealing in anyway with the above share certificates.
For Indian Toner & Developers Limited
Sd/-
(S.C. SINGHAL)
Place: New Delhi
Date: 04.09.2015
COMPANY SECRETARY

JMT AUTO LIMITED
An AMTEK Group Company
CIN: L42274DL1997PLC270939
Regd. Office: 3, LSC, Pamposh Enclave, Guru Nanak Market, Opp. LSC Market, New Delhi - 110 048
E-mail: jmt.auto@amtek.com; Phone: 0657-6626340
Website: www.jmtauto.com
NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that:
1. The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 28, 2015 at 09.30 A.M. at Maple Exotica, Chattarpur, Mandir Road, Satbari next to IIPM College, New Delhi-110074, to transact the business as contained in the Notice dated August 14, 2015, which has been sent to all the Members at their recorded address/email ids.
2. Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2015 to September 28, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.
3. Date of completion of sending of Notices: September 4, 2015.
4. Notice of the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.jmtauto.com
5. The Company is pleased to provide to its Shareholders electronic voting (e-voting) facility through CDSL, on all the resolutions set forth in the Notice dated August 14, 2015.
6. Date and time of remote e-voting: Starts from Friday, September 25, 2015 (9:00 a.m. IST) and will end on Sunday, September 27, 2015 (5:00 p.m. IST).
7. The cut-off date for dispatch of notice and remote e-voting is September 21, 2015.
8. Remote e-voting shall not be allowed beyond the above mentioned end time and any vote cast beyond that time shall be invalid.
9. The facility for voting shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
10. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again.
11. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com
12. The Notice of 28th Annual General Meeting is available on the Company's website at www.jmtauto.com and website of CDSL at: www.evotingindia.com
13. In case of queries or issues regarding e-voting, refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
By the Order of the Board
Sd/- Mona K Bahadur
Place: New Delhi
Date: 4th September, 2015
COMPANY SECRETARY

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorized Classified Ad Depots

EAST
KRISHNA NAGAR : SAMBHAV ADVERTISING 9810441787, 9310441787, 9910341787, 9810247146, 9310247146, 22467146, 22045649
MAVUR VIHAR PHASE-1 (UNA ENCLAVE): SUTRA MEDIA 98110234206, 25530307
JAIL ROAD (FATEH NAGAR) : SAGI ART ENTERPRISES 9212414566, 011-25624467, 25149746
KAROL BAGH (DEV NAGAR) : FOUR ACE ADVERTISING 9811055920, 9313096981, 011-25861291, 45034226, 45678486
KAROL BAGH (REGHARPURA) : K R ADVERTISERS 9810316618, 9310316618, 41547697, 25823062
WELL TECH MEDIA & ADVERTISING CO. (FAIZ ROAD) 999914203, 9999995625
KARAMPURA: GM ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD. 9310333777, 9211333777, 9810883377
NEW MOTI NAGAR : MITAL ADVERTISING 25178183, 9810538183, 9555945923
RAMESH NAGAR : POSITIVE ADS 9891195327, 9310006777, 9999627746, 9868415556, 25418908, 32924282
TILAK NAGAR : SHIVA ADVERTISERS 9891461543, 25980670, 20518836
UTTAM NAGAR : PANKAJ CONSULTANCY SERVICES 9811141548, 28561111
VIKAS PURI : AAKAR ADVT. MEDIA 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL
CHANDNI CHOWK : RAMINIWAAS ADVERTISING & MKTG 9810145472, 23912577, 23928577, 23932577, 23942577
CONNAUGHT PLACE : HARI OM ADVERTISING COMPANY 9811555181, 011-43751196
KASHMIRI GATE : KASHYAP ADVERTISING & MEDIA SERVICES 9811048338, 999026404, 9953447998, 011-65172184

NORTH
ASHOK VIHAR : SOOCHNA BHARTI TIMES 9310051495, 27451495, 27226172
AZADPUR : DEEPANSHU ADVERTISING & MARKETING 9312049202, 9211990354, 011-27785346, 27468575
DR. MUKHERJEE NAGAR (NEAR BATRA CINEMA) : VISTAR ADD COM 9266330622
INDERLOK : ATUL ENTERPRISES 9810698957, 20446163, 23656581
KINGWADY CAMP : SHAGAN ADVERTISING 9818505505, 27458589
PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) : MAHAN ADVERTISING & MARKETING 9873805169, 9311667517, 9350304609, 9911145749, 27662388
PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER 9311564460, 9311288839, 47057929
PITAMPURA (WEST ENCLAVE) : P M ADVERTISING 9811993925, 9810437714, 47548578
RANI BAGH : PRIME ADS 9990027162, 971200665, 01145017162

SOUTH
CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING 9811602901, 65181100,

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED.
Regd. Off.: NO. 11, RANI JHANSI ROAD, (MOTIA KHAN), M.M. ROAD, New Delhi-55
CIN: L74899DL1993PLC055697
NOTICE
NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING
NOTICE is hereby given that 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 29th September, 2015 at 11.00 A.M. at 14, Rani Jhansi Road, New Delhi-55 to transact the business(s) listed in the Notice which has been posted to the Members along with copy of 22nd Annual Report.
Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 and Clause 16 of the Standard Listing Agreement, NOTICE is hereby given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September, 2015 to Tuesday, 29th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of 22nd Annual General Meeting of the Company. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Rules framed there under, and the Listing Agreement, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). In order to enable Members, who do not have access to remote e-voting facility, the Company has enclosed a Ballot Form with the Notice to send their assent or dissent in writing in respect of resolutions as set out in the Notice.
All the Members are hereby informed that
i. All the items (Ordinary & Special Business) set forth in the Notice of the 22nd Annual General Meeting of the Company, which is sent to all the members, may be transacted through e-voting.
ii. The remote e-voting commences on Saturday, the September 26, 2015 (09:00 am) and ends on Monday, the September 28, 2015 (05:00 pm). During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Tuesday 22nd September, 2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall also be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
iii. The cut-off date (record date) for e-voting is Tuesday 22nd September, 2015.
iv. The procedure for e-voting is available in the Notice of the AGM as well as on the website of NSDL, www.evotingindia.com and also on the Company website www.ekamleasing.com, grievances, the Members may contact NSDL by emailing their queries/grievances at evoting@nsdl.co.in and/or to the Compliance Officer of the Company at info@ekamleasing.com / ekam.leasing1@gmail.com.
v. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on 22nd September 2015 i.e. cut off dates shall only be entitled for availing the e-voting facility or vote through Ballot Form or at the AGM. Any person who is not a Member as on cut-off date should threat this notice for information purposes only.
vi. Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a Members of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. 22nd September 2015, may obtain the Sequence Number by sending a request to info@ekamleasing.com, ekam.leasing1@gmail.com.
vii. The facility for voting through polling paper would be available at the venue of the AGM and the Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting or Ballot form would be able to exercise their right at the AGM through polling paper.
viii. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting or Ballot form but shall not be allowed to vote against in the AGM.
By order of the Board
For EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED
Sd/-
RAKESH JAIN
MANAGING DIRECTOR
Place: New Delhi
Date: 03.09.2015

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED.
Regd. Off.: 14, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI- 55, NEW DELHI- 110055
CIN: L51909DL1984PLC019441
NOTICE
NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING
NOTICE is hereby given that 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 29th September, 2015 at 10.00 A.M. at 14, Rani Jhansi Road, New Delhi-55 to transact the business(s) listed in the Notice which has been posted to the Members along with copy of 30th Annual Report.
Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 and Clause 16 of the Standard Listing Agreement, NOTICE is hereby given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September, 2015 to Tuesday, 29th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting of the Company. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Rules framed there under, and the Listing Agreement, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). In order to enable Members, who do not have access to remote e-voting facility, the Company has enclosed a Ballot Form with the Notice to send their assent or dissent in writing in respect of resolutions as set out in the Notice.
All the Members are hereby informed that
i. All the items (Ordinary & Special Business) set forth in the Notice of the 30th Annual General Meeting of the Company, which is sent to all the members, may be transacted through e-voting.
ii. The remote e-voting commences on Saturday, the September 26, 2015 (09:00 am) and ends on Monday, the September 28, 2015 (05:00 pm). During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Tuesday 22nd September, 2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall also be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
iii. The cut-off date (record date) for e-voting is Tuesday 22nd September, 2015.
iv. The procedure for e-voting is available in the Notice of the AGM as well as on the website of NSDL, www.evotingindia.com and also on the Company website www.cpil.com. In case of any queries/grievances, the Members may contact NSDL by emailing their queries/grievances at evoting@nsdl.co.in and/or to the Compliance Officer of the Company at info@cpil.com.
v. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on 22nd September 2015 i.e. cut off dates shall only be entitled for availing the e-voting facility or vote through Ballot Form or at the AGM. Any person who is not a Member as on cut-off date should threat this notice for information purposes only.
vi. Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a Members of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. 22nd September 2015, may obtain the Sequence Number by sending a request to info@cpil.com.
vii. The facility for voting through polling paper would be available at the venue of the AGM and the Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting or Ballot form would be able to exercise their right at the AGM through polling paper.
viii. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting or Ballot form but shall not be allowed to vote against in the AGM.
By order of the Board
For CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED.
Sd/-
AKASH JAIN
MANAGING DIRECTOR
Place: New Delhi
Date: 03.09.2015

KRBL Limited
Regd. Off. : 5190, Lahori Gate, Delhi - 110006
CIN: L01111DL1993PLC052845
Phone: 011-23968328, Fax: 011-23968327
Email: investor@krblindia.com; Website: www.krblrice.com
NOTICE OF THE 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT The Twenty Second (22nd) Annual General Meeting (AGM) of the Members of KRBL Limited will be held on Monday, September 28, 2015 at 11.00 A.M., at FICCI K. Birla Auditorium, 1, Tansen Marg, New Delhi-110001, to transact the business as mentioned in the Notice of AGM.
The Notice of 22nd AGM and Annual Report has been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 22nd AGM and Annual Report have been sent to all other Members whose email id is not registered, at their registered address in the permitted mode.
As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice. Mr. Deepak Kukreja, Partner DMK Associates, FCS No. F4140, PC No. 8265, Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner. The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder:
(i) Date and time of Commencement of Remote E-voting: Friday, September 25, 2015 (09:00 A.M.)
(ii) The Remote E-voting shall end on Sunday, September 27, 2015 (05:00 P.M.)
(iii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Monday, September 21, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting the general meeting.
(iv) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM may obtain the Login ID and password by following the procedure as mentioned in the Notice of the AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
(v) Voting through Remote E-voting shall not be allowed beyond 05.00 P.M. on Sunday, September 27, 2015. The E-Voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter.
(vi) The facility of voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
(vii) The Notice of 22nd AGM and Annual Report is available on the Company's website www.krblrice.com and on CDSL's website www.evotingindia.com.
(viii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
(ix) For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 22nd AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the HELP section of www.evotingindia.com or may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com and can contact Mr. Wenceslaus Furtado, Dy. Manager, CDSL India, 17th Floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001. (Contact No. 18002005533).
Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and Clause 16 of Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain Closed from September 17, 2015 to September 28, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the 22nd AGM of the Company and for determining the entitlement of dividend declared for the year ended March 31, 2015.
By Order of the Board
For KRBL Limited
Sd/-
Raman Sapra
Company Secretary
Place: Delhi
Date: September 03, 2015

FORM NO.5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007
(Area of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh and Uttaranchal)
SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION
O.A. No. 196/2015 Date: 21-08-2015
Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Bank & Financial Institution Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)
Original Application No. 196/2015
Oriental Bank Of CommerceApplicant
Versus
M/s Hussnain International India & OthersDefendants
To,
Defendants:
1-M/s. Hussnain International India, Hussnain Industrial Estate, Deer Park, Rampur Road, Moradabad-244001 (U.P.) through its partners.
2-Sri Idrish Hussain, Partner of M/s. Hussnain International India, Hussnain Industrial Estate, Deer Park, Rampur Road, Moradabad-244001 (U.P.)
3-Smt. Afsan Idrish W/o Sri Idrish Hussain, Partner of M/s. Hussnain International India, Hussnain Industrial Estate, Deer Park, Rampur Road, Moradabad-244001 (U.P.)
4-M/s. M & A Orient Accessories Pvt. Ltd. A-13, Sector-57, Noida (U.P.) through its Managing Director.
5-M/s. Rohilkhand Chemicals & Proteins Pvt. Ltd. Near Deer Park, Rampur Road, Moradabad-244001 (U.P.) through its Managing Director.
6-M/s. Rohilkhand Food Processing Pvt. Ltd. P.O. Box No. 402, Near Deer Park, Rampur Road, Moradabad-244001 (U.P.) through its Managing Director.
In the above noted application you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavit (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after Publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **13.11.2015 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow
Court Seal

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED
CIN: L74899DL1989PLC036148
Regd. Off.: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025 • Tel: +91 11-40500300, 011-43058345
Email: info@bkashyap.com Website: www.bkashyap.com
NOTICE OF AGM AND BOOK CLOSURE
NOTICE is hereby given that 26th Annual General Meeting 'AGM' of "the Company" will be held on Tuesday, September 29, 2015 at 10:00 a.m. at PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016 to transact the Ordinary and Special Business as given in the Notice. The Annual Report and notice of the Annual General Meeting alongwith the Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent to others at their registered address in the permitted mode.
Please note that Notice of AGM and Annual Report are being uploaded on the website of the Company viz. www.bkashyap.com as well as on CDSL website www.cdslindia.com for your ready reference and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours.
NOTICE is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 22, 2015 to Tuesday, September 29, 2015 (both days inclusive) for the purpose of 26th Annual General Meeting. Further, pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') provided by Central Depository Services Limited 'CDSL'. The Company has considered September 22, 2015, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their right to vote electronically.
The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Tuesday, 22nd September, 2015 (cut off date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the book closure may obtain the User ID and Password by follow the same instructions as mentioned in the Notice of Annual General Meeting for e-voting.
The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. The Members who have cast their vote through remote e-voting, may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again in the AGM.

Date of completion of sending Notice of AGM	Friday, September 4, 2015
Date & Time of commencement of E-voting	Saturday, September 26, 2015 (10:00 a.m.)
Date & Time of closure of E-voting	Monday, September 28, 2015 (05:00 p.m.)

The E-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
Website details of Company where the Notice of AGM is displayed www.bkashyap.com.
The procedure of E-voting is available in the notice of the AGM sent to the members. In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or contact - Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager of the Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 E-mail ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com or Contact No. 18002005533.
A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLL INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. The instrument appointing Proxy should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
By Order of the Board of Directors
FOR B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED
Sd/-
PUSHPAK KUMAR
Date : 4th September, 2015
Place : New Delhi
GM-CORPORATE AFFAIRS & COMPANY SECRETARY

BUSINESS
For Corporate Funding & Loans against shares. Contact: naz@jemfiscal.com or www.jemfiscal.com
0070399700-1

HARYANA POWER GENERATION CORPORATION LIMITED
Regd. Office- C-7, Urja Bhawan, Sector-6, Panchkula
Corporate Identity Number U45207HR1997SGC033517
website: www.hpgei.gov.in
CORRIGENDUM

Sr. No.	Corrigendum Number	Brief Scope of Work/purchase	Extended Till date
1.	2nd Corrigendum of NIT/ 227/BMD-III (item No. 2423 on e-porta haryanaaprocmement.gov.in)	ARC for Maintenance and Overhauling of Coal Mills XRP-803, RC Feeders & Variators and Miscellaneous works of Boiler, Unit-5, PTPS-II.	Extended till 17.09.2015 upto 13.00 hrs.

NOTE: The details of above NIT along with Tender Documents can be seen and downloaded from website: https://haryanaaprocmement.gov.in
30718/HRY
Chief Engineer/PTPS-2.

PALSOFT INFOSYSTEMS LIMITED
CIN: L72200RJ1994PLC008112
REGD OFFICE: D-469, Road No. 9A, V.K.I Area, Jaipur- 302013
Email: palsoftinfo@gmail.com, Phone: 0141- 2333994
Notice of the 22nd Annual General Meeting, Book Closure & Remote E-Voting
Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Palsoft Infosystems Limited shall be held on Wednesday, the 30th day of September, 2015 at 11.00 AM at its Registered Office at D-469, Road No 9A, V.K.I. Area, Jaipur- 302013 to transact the ordinary and special Businesses, as set out in the Notice Dated 26th August, 2015 convening the AGM. The notice of the 22nd AGM will also be available at the website of the Company www.palsoft.in and at the website of National Depository Service (India) Limited ('NSDL') www.nsdl.com.
Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the applicable rules framed thereunder that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from **Wednesday September 23, 2015 to Wednesday September 30, 2015 (both days inclusive)** for the purpose of AGM. The remote e-voting facility will be available from **September 26, 2015 at 9.00 a.m. to September 29, 2015 at 5.00 p.m.** The remote e-voting facility will not be available after the time mentioned above.
Pursuant to Section 108 of the Act and Listing Agreement, Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right of voting through electronic means in respect to the items as set out in the Notice Dated 26th August, 2015. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
The members, holding shares, as on the Cut off date i.e 23rd September, 2015, only can cast their vote through remote e-voting or Ballot Paper at the AGM venue. Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holds shares as on the cut-off date i.e 23rd September, 2015 may obtain their User ID & Password from NSDL. In case of any query pertaining to remote e-voting, please contact NSDL at the toll free no.: 1800222990 or can refer the e-voting manual available at www.evotingindia.com or M/s. Shipa Agarwal Company Secretary at the email id and address mentioned above.
By the Order of Board of Directors
For Palsoft Infosystems Limited
Sd/-
Shipa Agarwal
Company Secretary
Place: Jaipur
Date: 05.09.2015

ORIENT BELL LIMITED
Regd. Off.: 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203 205 (U.P.)
Corp. Off.: Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi - 110 046
CIN : L14101UP1977PLC021546, Tel.: +91-11-47119100, Fax: +91-11-28521273
Email: Customercare@orientbell.com, website: www.orientbell.com
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Orient Bell Limited will be held on Wednesday the 30th day of September 2015 at 11.30 a.m. at its registered office at 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist Bulandshahr, (U.P.).
Notice is further given that pursuant to the provisions of Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday 26th September, 2015 to Wednesday 30th September, 2015 (both days inclusive).
The Company is pleased to provide Remote E-voting facility to its members for transacting the business at the above said AGM scheduled to be held on 30th September, 2015. The Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 23rd September, 2015 (i.e. Cut-off date) may cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice of the 38th AGM through Remote E-voting services provided by National Securities Depository Ltd. ('NSDL'). All the members are informed that:
a) notice of 38th AGM along with Annual Report for the FY 2014-15 has been sent to all the members whose email id is registered with Company/Depository Participants on their email id and to all other members in Physical form on their registered address through permissible mode.
b) The remote e-voting shall commence on 27th September, 2015 (09.00 a.m. IST) and end on 29th September, 2015 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on 29th September, 2015;
c) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or admin@mcsl.com.
d) The facility for voting through Ballot Paper / Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot Paper/ Polling Paper.
e) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM
f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot / polling paper.
g) The Notice of 38th AGM is available on the Company's website www.orientbell.com on the NSDL's website www.evotingindia.com.
h) In case of any queries members may also write to the undersigned at investor@orientbell.com or at the Corporate office address.
For Orient Bell Limited
Sd/-
Yogesh Mendiratta
Place : New Delhi
Date : 04.09.2015
Company Secretary & Head-Legal

Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited
Regd. Off.: 4830/24, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi – 110002
CIN - L21012DL1972PLC279773
E-mail: info@skpmil.com Website: www.skpmil.com
Tel: 91-11-23261728, Fax: 91-11-23266708
NOTICE
Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, September 29, 2015 at 11.00 a.m. at Shikshak Sadan, Surajmal Vihar, Delhi 110092 to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated August 25, 2015. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement with the Stock Exchange, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 25, 2015 to September 29, 2015 (both days inclusive).
Notice of the AGM together with Annual Report for the F.Y. 2014-2015 has been sent to all members by permitted mode at their address registered with the Company and/or electronically to those members who have registered their email address with the Company or their respective Depository Participant. The electronic transmission/physical dispatch of notices together with Annual Report has been completed on September 3, 2015. The Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2014-15 are available on Company's website www.skpmil.com. The notice of AGM inter alia indicating the process and manner of E-Voting process can be also downloaded from the website of CDSL at www.cdslindia.com.
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of Listing Agreement, the Company is pleased to provide all the members (holding shares in physical or electronic form), the facility to exercise the right to vote for the businesses to be transacted at the AGM through the electronic voting (e-voting) services by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners as on cut off date i.e. September 22, 2015 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding the shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2015 may obtain the User ID and Password in the manner as laid down in the notice of AGM.
Voting through electronic mode shall commence on Saturday, September 26, 2015 at 9.00 a.m. and shall end on Monday, September 28, 2015 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled on September 28, 2015 at 5.00 p.m. i.e. voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 28, 2015.
Members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the meeting but shall not be allowed to cast their vote again. Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through Ballot Paper.
Members may go through instructions explained in the notice of the AGM or in the case of any query, may refer the frequently asked question (FAQ) and e-voting manual available at the download section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdsl

याचिका की सुनवाई से हट न्यायमूर्ति यूथू ललित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआइए की ओर से विशेष लोक अभियोजक को हटाने के खिलाफ दायर आवेदन पर सुनवाई से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि उन्होंने मामले में कुछ आरोपियों की पैरवी की थी। न्यायमूर्ति यूथू ललित ने मामले में सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा, ‘मैंने मामले में कुछ आरोपियों की पैरवी की थी।’

न्यायमूर्ति एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसपर कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। जो इसे किसी दूसरी पीठ को सौंपेंगे।

जनहित याचिका दायर करने वाले हर्ष मंदर की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यदि वर्तमान पीठ मामले की सुनवाई करने का फैसला करती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बहरहाल अदालत ने इस आग्रह को खारिज कर दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजग सरकार अभियोजक पर आरोपियों के प्रति नरमी बरतने के लिए दबाव डाल कर अभियोजक के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया कि कार्यपालिका न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधिकारियों ने संभवतः अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर

मामले में पूर्ववर्ती विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियन पर दबाव डाला था। याचिका में कहा गया है कि एनआइए का नियंत्रण रखने वाला गृह मंत्रालय आरोपी लोगों पर नरमी के लिए एक ईमानदार लोक अभियोजक को कथित तौर पर प्रभावित करने। उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। याचिकाकर्ता ने पारदर्शी मुकदमा सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि डर की वजह है कि कार्यपालिका सभी मामलों में उसकी विचारधारा से सहानुभूति रखने वाले दक्षिणपंथी चरमपंथियों को प्रश्रय देने सहित न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सालियन मामले में विशेष लोक अभियोजक थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि एनआइए के एक अधिकारी ने उनसे कहा कि वे आरोपियों के प्रति नरम रुख दिखाएं। सालियान अब एनआइए के वकीलों के फैनल में नहीं है।

जनहित याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह पारदर्शी मुकदमा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करे और सालियान पर कथित दबाव बनाने वाले एनआइए अधिकारियों की कथित कारवाइयों की जांच के लिए सीबीआई की विशेष जांच टीम गठित करे।

इस चर्चित मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल एसपी पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम हैं। चार हजार पन्नों के आरोपपत्र में आरोप

लगाया गया था कि मालेगांव को विस्फोटों के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वहां काफी तादाद में मुसलमान आबादी है। इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित और अन्य आरोपी स्वामी दयानंद पांडेय के नाम प्रमुख शङ्क्यकारियों के रूप में लिए गए हैं। आरोपपत्र में कहा गया था कि पांडेय ने पुरोहित को आरडीएक्स का इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, जबकि प्रज्ञा की मोटरसाइकिल विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई। इसमें आरोप

PUBLIC NOTICE

This is to notify that the channel ‘Focus News’ shall be discontinued on DTH platform i.e. Tata Sky from midnight of September 30, 2015.

Positiv Television Pvt. Ltd.
CIN: U92132DL2003PTCH18583
7C, Doctor Lane, Gole Market, New Delhi

रौनक इंपीरी इंटरनेशनल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 20 फ़ि.मी. न्यूरा रोड, पो.ओ. नगर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
दूरभाष: +91(129)4288888, फ़ैक्स: +91(129)4288823-22
ई-मेल: shareholders@rnl.co.in, www.shareholders@rnl.co.in
सीआरएनए: L51909HR1965PLC034315

रौनक इंटरेन्शनल लिमिटेड के नाम में बरखा
किसी कंपनी के हिस्सेदारों एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 30 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों एवं केंद्र सरकार के प्राधिकृत अनुमोदन के पर्याप्त 31 अगस्त 2015 से प्रभावी कंपनी का नाम “रौनक इंटरेन्शनल लिमिटेड” से “रौनक इंपीरी इंटरनेशनल लिमिटेड” में बदल गया है। नया नाम कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के स्वरूप का विवरण अधिक उचित रूप और अपेक्षितता से कर रहा है।

कृते रौनक इंपीरी इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता/-
तिथि: 04 सितंबर, 2015
स्थान: फरीदाबाद

कौशल नरसा
कम्पनी सचिव

PVR CINEMAS

PVR LIMITED

Registered Office:- 61, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi- 110 057

Corporate Office – Block A, 4th Floor, Building No. 9A, DLF Cyber City, Phase-III, Gurgaon – 122002
T +91-124-4780100, Fax +91-124-4780101

Website - www.pvr cinemas.com
CIN: L74899DL1995PLC067827

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of PVR Limited will be held on Tuesday, the 29th September, 2015 at 10:30 a.m at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi- 110038, to transact the business as mentioned in the Notice dated 22nd July 2015 convening the AGM which has been sent to the members.

Notice is also given that pursuant to the provision of Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 22nd September, 2015 (Tuesday) to 29th September, 2015 (Tuesday) (both days inclusive) for the said AGM of the Company and payment of dividend, if approved at the AGM.

NOTICE TO MEMBERS OF THE COMPANY

As indicated in the Notice, the Company is providing remote e-voting facility to the shareholders of the Company to enable them to cast their votes electronically on all Ordinary and Special Business items forming part of the Notice of AGM.

The remote e-voting of the shareholders/ beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 22nd September, 2015 being the CUT-OFF DATE for the purpose. The shareholder of the company holding share either in physical or dematerialized form, on the said cut-off date, may cast their vote electronically.

Remote e-voting communication together with notice dated 22nd July, 2015 has been sent by registered post and/ or e-mail. The Company has engaged KARVY Computershare Pvt. Ltd. for providing remote e-voting platform. Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice and before the Cut-Off Date may approach the Company/karvy for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means. Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again in the meeting. Members present at the AGM will be entitled to cast their vote by way of poll.

Members are requested to refer the Notice for E-voting procedure and take note of the following information:

AGM	Date of Completion of sending Notice of 4th September, 2015
Date and time of commencement of voting through electronic means	26th September, 2015 at 9:00 a.m
Date and time of ending of voting through electronic means	28th September, 2015 at 5:00 pm *
Website address of the Company where Notice of AGM is displayed	www.pvr cinemas.com
Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting	Mr. Pankaj Dwivedi Sr. VP- Secretarial Block A, 4th Floor, Building No. 9A, DLF Cyber City, Phase III, Gurgaon 122002 (Haryana) India. Tel.No. 91 124 4780100 Mail: pankaj.dhawan@pvr cinemas.com www.pvr cinemas.com
*The remote e-voting will not be allowed beyond the said date and time.	
By order of the Board For PVR Limited	
Sd/- Pankaj Dhawan Sr. VP-Secretarial	

JAI MATA GLASS LIMITED
REGD. OFFICE: TIPSRA, BAROTIWALA, DISTRICT SOLAN (H.P.)-174 103

Pursuant to notification dated 19th March 2015 issued under the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2013 ("hereinafter, Amendment Rules, 2015")

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Shareholders, will be held at the Registe Office of the Company at Village Tipla, P. O. Banwahal, District Solan, Himachal Pradesh- 174103 on Wednesday, the 30th day of September, 2015 at 11.00 A.M. and in accordance with the provisions of Section 91 o the Companies Act, 2013("the Act") the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 25th September 2015 to Tuesday, 29th September 2015.

Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of its Annual General Meeting on Thursday, 31st August 2015 pursuant to the Provisions of Section 108 of The Companies Act, 2013 and Rule 20 Of The Companies (Management And Administration) Rules, 2014, as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is Pleased To Provide Members Facility To Exercise Their Right To Attend And/Or Cast Their Votes At The AGM By Electronic Means. And The Business May Be Transacted Through E-Voting Services Provided By Central Depository Services Limited (CDSL).

Other Disclosures are as below:-

a) **Date and time of commencement and end of remote e-voting:**
The shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in Demat form can vote through e-Voting The voting period begins on <26th September 2015 at 9.00am> and ends on <28th September 2015 at 5.00 pm>. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

b) **Cut-off date:**
Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September 2015 may follow the same instructions as mentioned above for e-Voting.

c) **Manner of obtaining the login ID and password by persons who have acquired shares and become members of the company.** The instructions for Login id and password have been provided in the notes to the Notice and also in the email sent to the members to enable Members to use e-Voting facility.

d) **Members may please note the below mentioned facts:**

- remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time as detailed in Para (a) above;
- the manner for voting by members present at the meeting shall be as detailed in Para (d) above;
- a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and
- a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e 23rd September 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

e) **Members may also note that the Notice of the 35th Annual General Meeting and the Annual Report for 2015 will also be available on the Company's website www.jaimataglass.com for download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Company's Registered Office for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same, by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Company's investor email id: admin@jaimataglass.com**

f) **The Chairman shall, at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutineer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.**

g) **The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast by the members and thereafter the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than three days of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes; cast in favour or against, if any, to the Chairman and shall authorize by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.**

h) **The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company and shall also be available on the website of CDSL immediately after the declaration of the results by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the securities of the Company are listed.**

i) **In case of queries/grievances with regarding for voting by electronic means, contact Mr. Vencenslaus Furtado Deputy Manager, CDSL, Contact No:- 18002005533, email ID:- helpdesk.evoting@cdslindia.com**

By Order of the Board of Directors
Sd/-
C. M. Marwah
Managing Director
DIN 00172818

Place: New Delhi
Date: 03.09.2015

असम में बाढ़ से पांच और मेरे

गुवाहाटी, 4 सितंबर (भाषा)। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तीन जिलों से पांच और लोगों की मौत की खबर है। इससे बाढ़ में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक, मोरीगांव जिले के मायोंग सर्किल में ब्रह्मपुत्र नदी के उफान की चपेट में आकर एक शख्स बह गया जबकि डिब्रूगढ़ और ज्वालपारा जिलों से दो लोगों की मौत की सूचना है। बयान के मुताबिक 21 जिलों के 2,080 गांवों के करीब 16 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जबकि 1,72,308 हेक्टेयर फसल भूमि जलमग्न हो चुकी है। राज्य सरकार ने 320 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां 2,06,679 लोगों ने शरण ली है। आधारभूत संरचना के नुकसान की भी खबर है। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसे जानवरों से अटा पड़ा है जो पड़ोसी काबाई आंगलांग की पहाड़ियों में ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं।

मुठभेड़ में महिला नक्सली डेर

नागपुर, 4 सितंबर (भाषा)। पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 27 साल की एक महिला नक्सली मारी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मुक्ता कुमरे रज्जो मज्जी भाग्राड़ में ‘चटगांव दलम’ के तहत टेथ कंपनी की सदस्य थी। वह 2014 में हुई चार गंभीर मुठभेड़ों में से तीन में शामिल थी। गढ़चिरोली पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक गुन्धवार रात धनरा तुलुका में पोमके गट्टे के कोंधेकाल वनों में छुपे चरमपंथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की। बयान में कहा गया है कि पुलिस ने बाद में तीन राफफल, एक हथगोला, एसएलआर के 18 कारतूस और अन्य सामग्री मौके से बरामद की।

लगाया गया था कि मालेगांव को विस्फोटों के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वहां काफी तादाद में मुसलमान आबादी है। इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित और अन्य आरोपी स्वामी दयानंद पांडेय के नाम प्रमुख शङ्क्यकारियों के रूप में लिए गए हैं। आरोपपत्र में कहा गया था कि पांडेय ने पुरोहित को आरडीएक्स का इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, जबकि प्रज्ञा की मोटरसाइकिल विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई। इसमें आरोप

लगाया गया था कि मालेगांव को विस्फोटों के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वहां काफी तादाद में मुसलमान आबादी है। इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित और अन्य आरोपी स्वामी दयानंद पांडेय के नाम प्रमुख शङ्क्यकारियों के रूप में लिए गए हैं। आरोपपत्र में कहा गया था कि पांडेय ने पुरोहित को आरडीएक्स का इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, जबकि प्रज्ञा की मोटरसाइकिल विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई। इसमें आरोप

जगदीश म्हात्रे और समीर सितंबर को हुए विस्फोट में चार कुलकर्णी इस मामले के अन्य लोगों की मौत हो गई थी और आरोपी हैं। साल 2008 में 29 लगभग 80 अन्य घायल हुए थे।

NCL RESEARCH & FINANCIAL SERVICES LIMITED
CIN : L65921UP1985PLC007001
Regd. Off:- Office No. 115, City Hotel Complex, Labagh, 24, B N Road, Lucknow-226 001 (U. P.)
Tel : +91 522 30 79 482, Email : ncl.research@gmail.com

Notice for Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Saturday, the 26th day of September, 2015 at 11.00 A.M. at 115, City Hotel Complex, 1st Floor, Labagh, 24, B N Road, Lucknow -226 001 (Uttar Pradesh) to transact the business as per the Notice of AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th September 2015 to 26th September 2015 (both days inclusive) for such purpose in terms of Section 91 of the Companies Act, 2013.

Notice of the meeting setting out the businesses to be transacted together with the Balance Sheet for the year ended 31st March 2015 and Statement of Profit & Loss for the year ended as on that date, including the schedules thereon, Auditors Report and Directors' Report have been sent through e-mail to the members whose addresses are registered with the Company through permitted shares either to those members who have not yet registered their email address. The date of completion of Notice of the aforesaid AGM is 3rd September 2015.

The Shareholders desiring to receive the notice together with Annual Report in paper mode are requested to write to the RTA. The shareholders are requested to register their email address and change therein from time to time by writing to RTA (Depository).

The Annual Report along with the Notice of the 30th Annual General Meeting can also be accessed from the Website of the Company www.nclfn.com and the website www.bsindia.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act 2013, Rule 20 of Companies (Management and Administration) amended Rules 2015, and Clause 35B of Listing Agreement the Company has arranged facilities for members to exercise their rights to vote on the resolution proposed to be considered at the said AGM may be transacted by casting of votes by the members using electronic voting system from a place other than that of the venue of the aforesaid AGM (remote e-voting) which will be managed by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL).

The remote e-voting will commence on Wednesday, Sept 23, 2015 (9.30 am) and will end on Friday, Sept 25, 2015 (5.00 pm). During the e-voting period, members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. 19th September 2015, will be eligible to cast their vote electronically. Detailed instructions pertaining to e-voting, Members may please refer Notice to the Notice of the Annual General Meeting. In case of queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, Members may get in touch with RTA of the Company.

For those members who have acquired shares after dispatch of AGM Notice, can exercise their voting rights in the same manner as indicated in the Notes to Notice and can ask RTA to provide AGM Notice together with Annual Report and E-voting Ballot Form. In case of postal ballot duly completed forms should reach the Scrutinizer before the date as indicated in the Notice of the AGM.

For Queries/grievances related to remote e-voting, members may refer to the following person -
Mr. Vignesh Sharma, Directr Address- 59, Stephen House, 5th Floor, 4, B.B.D Bag (East), Kolkata-700 001, Email ID: abscounsellor@vsnl.net, Tel: +91 33 2220 1043.

For NCL Research & Financial Services Limited
Sd/-
Madhu P. Dharewa
Company Secretary

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा कोरल बाग

179/45 डब्लू ई ए, कोरल बाग नई दिल्ली- 110 005 फोन नं. 011-28753622, 28758621 फैक्स: 011-28758629 ई-मेल: bom140@mahabank.co.in

(नियम-8 (1)) कच्चे की सूचना

जबकि, अपोहस्ताक्षरकों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आसिधियों का प्रतिनिधित्व एवं पुर्णतः और प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 की धारा 13(1)(2) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का उपबंध विनियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्वयेोग में एक आम सूचना पत्र दिनांक 26.11.2014 को जारी किया। जिसमें श्रेणीयों एवं जमानतदारों

1. मेरसई एंकीपी जेयस एण्ड ज्वैल्स, 2781/21, नूतन, विद्योपुरा कोरल बाग, नई दिल्ली- 110005
2. श्री अजय कुमार पाण्डे, 64बी, ओम विहार, नई दिल्ली- 110059
3. श्री अभिल कुमार पाण्डे, 64बी, ओम विहार, नई दिल्ली- 110059
4. श्रीमती राधा जोशी, आरखेड 31, गली नं. 2, दिग्यु गाईन, खयाल, नई दिल्ली- 110018
5. श्रीमती सोनी जैन, 271, ब्लॉक बी, सरस्वती विहार, पीएमपुरा, दिल्ली- 110034
6. श्रीमती चन्दकला, मकाब नं. 3/1250, रात महल, नेवलेट्टी सिरोमा के पीछे, चांदी की कूच, दिल्ली- 110006

के रुपये 4,68,09,399 (रुपये चार करोड़ अठसठ लाख नौ हजार तीन सौ निब्बानवे मात्र) दिनांक 31.10.2014 को + 15.65 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज मासिक बकाया के साथ तथा दिनांक 01.11.2014 से प्रभावी 2 प्रतिशत दण्डालक ब्याज के साथ इत लेटिस की पावती से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु काया।

श्रेणीयों एवं जमानतदारों के उपरोक्त लेटिस में निर्दिष्ट अवधि में भुगतान करने में असफल होने पर श्रेणीयों एवं जमानतदारों तथा सामान्य जन को एवढ् दारा सूचना दी जाती है कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा कथित नियमों के नियम 8 के तहत दिनांक 31.08.2015 को विन्यासित शर्तियों का कानून ले लिया है।

श्रेणीयों एवं जमानतदारों को विशेषतया तथा जनसाधारण को सामान्यतया संपत्ति में व्यवहार ना करने हेतु सूचेत किया जाता है एवं संपत्ति में किया जाया कोई भी व्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रुपये 4,68,09,399 (रुपये चार करोड़ अठसठ लाख नौ हजार तीन सौ निब्बानवे मात्र) दिनांक 31.10.2014 को + 15.65 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज मासिक बकाया के साथ तथा दिनांक 01.11.2014 से प्रभावी 2 प्रतिशत दण्डालक ब्याज के साथ तथा सूक्ष्मी में हुई लागतों एवं खर्चों में से यदि कोई बरूनी हुई है तो उसे उक्त करने के उपरान्त को अर्पण होता।

बंधक संपत्ति का विवरण

1. श्रीमती राधा जोशी के नाम से सामयिक बंधक व्यवसायिक संपत्ति निजी नं. 1 एसीएल नं. 2578-2579, गली नं. 5 (प्रथम तल का हिस्सा) नाई वाला एस्टेट, बीडपुरा, कोरल बाग, नई दिल्ली- 110005 में स्थित। क्षेत्रफल 122 वर्गफिट।
2. श्रीमती राधा जोशी के नाम से सामयिक बंधक व्यवसायिक संपत्ति निजी नं. 2 एसीएल नं. 2578 एवं 2579, गली नं. 5 (प्रथम तल का हिस्सा) नाई वाला एस्टेट, बीडपुरा, कोरल बाग, नई दिल्ली- 110005 में स्थित। क्षेत्रफल 106 वर्गफिट।
3. श्रीमती राधा जोशी के नाम से सामयिक बंधक व्यवसायिक संपत्ति निजी नं. 3 एसीएल नं. 2578 एवं 2579, गली नं. 5 (प्रथम तल का हिस्सा) नाई वाला एस्टेट, बीडपुरा, कोरल बाग, नई दिल्ली- 110005 में स्थित। क्षेत्रफल 230 वर्गफिट।
4. श्रीमती सोनी जैन के नाम से सामयिक बंधक संपत्ति तृतीय तल छत के अधिकार के साथ संलग्न राख्वा 149 ब्लॉक एी, पॉइंट 21, सेक्टर 7, रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत, राशिणी दिल्ली- 110085 में स्थित। क्षेत्रफल 25.90 वर्गमीटर।
5. श्रीमती चन्दकला के नाम से सामयिक बंधक आवासीय संपत्ति तृतीय तल छत के अधिकार के साथ प्लॉट नं. 126 ब्लॉक ए, सेक्टर 2, रोहिणी दिल्ली-110085 में स्थित। क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर।
6. श्री अजय कुमार पाण्डे के नाम से सामयिक बंधक दुकान निजी नं. एफएफ 6, प्रथम तल पत्र विना छत के अधिकार के प्लॉट नं. 25, ब्लॉक पी, वार्ड नं. 16, संपत्ति एसीएल नं. 2728, गली नं. 23 एवं 24 नाईवाला एस्टेट बीडपुरा कोरल बाग नई दिल्ली में स्थित। क्षेत्रफल 13.36 वर्गफिट।

दिनांक: 31.08.2015
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: ए-2/3, तीसरी मंजिल, लुसा टावर, आनन्दपुर कम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, आनन्दपुर, दिल्ली-110033

CIN: L67190DL1993PLC052050, फोन: 011-47020100, 27874615, फ़ैक्स: +91-11-47619811
वेबसाइट: www.itansecurities.com, ईमेल: Shareholders@yaho.com

23वें वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर एवं रिपोर्ट ई-मतदान हेतु सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि टायन सिक्युरिटीज लिमिटेड के सदस्यों की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक 30 सितंबर, 2015, बुधवार को प्रातः 10.30 बजे, 11:00, सेक्टर-25, बंगला, इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110039 में, एजीएम प्रेषित सूचना में व्यक्त सामान्य एवं विशेष कार्याधी निम्नानुसृत एवं आयोजित की जाएगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्राधान्यों तथा सूचीबद्ध समझौते के खंड 16 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों का संचितदार और शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 24 सितंबर, 2015 से 30 सितंबर, 2015 (दोनों दिनों सहित) तक, कंपनी की एजीएम हेतु बंद रहेगी। एजीएम सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेज दी गयी है तथा इसे कंपनी या संचितदार एवं शेयर हस्तांतरण प्लेटफ़ॉर्म शेयरधारक डीपी के पास उपलब्ध करवाया जायेगा।

कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सूचना-समय पर सश्रोतन के अनुसार और सूचीबद्ध समझौते के खंड 35बी के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम सूचना दिनांक 27 अगस्त, 2015, में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत देने हेतु, रिपोर्ट ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है, यह सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (डिडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान ई-मतदान सेवा से प्रदान की जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

- (i) रिपोर्ट ई-मतदान बुक्रवार, 26 सितंबर, 2015, प्रातः 10.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 29 सितंबर, 2015 को प्रातः 08.00 बजे बंद हो जाएगी। रिपोर्ट ई-मतदान की अनुमति 29 सितंबर, 2015 को प्रातः 08.00 बजे के बाद नहीं होगी। मतदान के बाद ई-मतदान मैनेजर्स को सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्तावों के एक बार मतदान कर देने के बाद, इसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ii) यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना भेजने के बाद, ऑनलाइन कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2015 को या उसके पहले कंपनी का सदस्य बनता है तो वह helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा itan.securities@yahoo.com को मेल कर सकता है तथा वेबसाइट <http://www.evotingindia.com> देखा सकता है और उसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

सदस्य ध्यान दें कि:

- (i) एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- (ii) एजीएम से पहले रिपोर्ट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य, एजीएम में भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकते।
- (iii) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के संचितदार या कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2015 के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गये लाभांश सत्यापनों के संचितदार में दर्ज होता है, केवल वह व्यक्ति ही रिपोर्ट ई-मतदान सुविधा के साधन-साधन एजीएम में मतपत्र से मतदान सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगी तथा
- (iv) एजीएम सूचना, वार्षिक रिपोर्ट सहित, कंपनी की वेबसाइट www.itansecuritiesltd.com पर निराजन-सूचित तथा वार्षिक रिपोर्ट सप्त-सूचित में उपलब्ध है। एजीएम की सूचना और सांजोनिज सूचना भी www.cdslindia.com पर दी जाएगी।

निदेशक बोर्ड ने मेरसई एंकीपेयस एण्ड कंपनी के मालिक, श्री निरोक्त कुमार निरुन (डिप्टिफिसर कंपनी सचिव-सदस्य एवं एडवोकेट) को मतदान/पेल तथा रिपोर्ट मतदान प्रक्रिया को निष्पाद एवं चारदर्शी ढंग से सम्पन्न करने के लिए संचालक नियुक्त किया।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में निर्दिष्ट ई-मतदान से संबंधित दिशा-निर्देशों को साकारनीयतापूर्वक पढ़ें। किसी प्रश्नार्थक हुए आप वेबसाइट www.evotingindia.com के सचिनवर्जिज शेयरहोल्डर पर उपलब्ध संचारकाको के लिए अक्सर प्रुठ जाने वाले प्रश्नों (फ़्रीक्वण्टली अस्क़ेड) एवं रिपोर्ट ई-मतदान सूचना में उपलब्ध एव helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हुए किसी भी सिकावतों के लिए आप की सेवकाल फ़ोन पर, एम प्रब्रंकर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (डिडिया) लिमिटेड, 15वां फ़्लोर, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, पॉस्ट, मुम्बई-400001 अपना टोल फ्री नं 18002005533 तथा सभी सभ्य नम्बर, एसीएम, एसीएम के लिंक इन्टरनेट डिडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई-मेल swapan@linkintime.co.in अथवा 011-41410592 पर संपर्क करें।

सदस्यों को कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज, निदेशाण हेतु कंपनी के निजीकृत कार्यालय में वार्षिक सामान्य बैठक से पहले सभी कार्यवाहियों में (लेबरर को छोड़कर) प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

हरित अधिाण का सम्बंध करने हेतु, जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या अपने ई-मेल पते को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सभी प्रकार के सूचना प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डीपी (डिप्लेकटिव डीपी) से लिंक इन्टरनेट डिडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

कृते एवं टायन सिक्युरिटीज लिमिटेड की ओर से
हस्ता/-
दिनेश कुमार मौर्य
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.09.2015

A-35880

PNB NB GILTS LTD
CIN: L74899DL1996PLC077120
जिला: ऑफिस: 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फ़ोन : 011-23325759, 23325779, फ़ैक्स : 011-23325751, 23325763
ई-मेल: pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइट: www.pnbgilts.com

निदेशक के रूप में व्यक्ति की उम्मीदवारी की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत कम्पनी को एक सदस्य द्वारा श्रीमती उषा अंतस्तुब्रमण्यन, प्रबंध निदेशक एण्ड सीईओ-पंजाब नेशनल बैंक, का निदेशक पद हेतु नामांकन